

03.11.2022

Corporate Relationship Department,
The BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Tower,
Dalal Street, MUMBAI- 400 001.
SECURITY CODE NO. 520121

Sub :- Newspaper Publication for Board Meeting to consider and approve unaudited financial results for the quarter and half year ended on September 30, 2022.

Dear Sir/Madam.

Pursuant to Our Letter dated 02/11/2021 regarding meeting of Board of Directors of the Company to be held on Saturday, November 12, 2022 to consider and take on record inter alia the unaudited financial results of the Company for the quarter and half year ended 30th September, 2022. We hereby enclose copies of the Notice Published in (The Financial Express) English Newspaper and (Jansatta) Hindi newspaper on 03/11/2022.

This is for your information in your records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For: ARCEE INDUSTRIES LIMITED

Digitally signed
by Srishti
Date: 2022.11.03
15:31:13 +05'30'

(SRISHTI)
COMPANY SECRETARY &
COMPLIANCE OFFICER

ARCEE INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office & Works: 7th K.M. Barwala Road
Talwandi Rana, Hisar-125001 (Haryana)
Ph No. 98120-20111, 98120-40111
Email ID: arceind@rediffmail.com,
CIN: L29120HR1992PLC031681

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, the 12th day of November, 2022, inter-alia, to consider and approve the unaudited Financial Results for the quarter and Half year ended on September 30, 2022.

For: ARCEE INDUSTRIES LTD.,
Sd/-
(SHRUTI GUPTA)

Place: Hisar (Haryana) Director
Dated: 02.11.2022 DIN- 01742368

TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED

Registered Address: 11th Floor, Tower A, Peninsula
Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai
Branch Address: TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED
2Nd Floor, Lajpat Nagar - Part 2, Above Hdfe Bank, Noida

CORRIGENDUM

This is in Reference to the Sale notice published in this newspaper Loan A/C no 9460888 & 9460210 of MR. SUMAN MONDAL S/O The Reserve price of Rs. 54,00,000/- and EMD amount of Rs. 5,00,000/- said notice are pertaining to the property Flat No. 506, 5th Floor, Feet, Tower - Jubilant, Sikka Kaamma Greens, Plot No. GH-03-201301 (Uttar Pradesh). Please ignore the details of the Flat No. 506, 5th Floor, Feet, Tower - Jubilant, Sikka Kaamma Greens, Plot No. GH-03-201301 erroneously mentioned, All other details and terms & conditions will remain the same.

Place: Delhi
Date: 03-11-2022

Tata Capital

K M SUGAR MILLS LIMITED

CIN No. : L15421UP1971PLC003492
Regd. Office: 11-Moli Bhawan, Collector Ganj, Kanpur
Corp. Office: 76-Eldeco Green, Gomti Nagar, Lucknow
E-mail:- cs@kmsugar.in Phone : 0512-2310762, 0512-2310763

NOTICE OF BOARD MEETING

Pursuant to Regulation 29, 33 and Regulation 47 of SEBI (Disclosure Requirements), Regulations 2015, Notice is hereby given that (03/2022) Board Meeting of the Company is scheduled to be held at its Regd. Office, Kanpur on Saturday, the 12th November, 2022 at 01:00 pm inter alia to consider and approve the Audited Financial Statements of the Company for the quarter/half ended 30th September, 2022.

The trading window in respect of Company's securities shall open after 48 hours of declaration of financial results of the Company for the Quarter/half year ended on 30th September, 2022.

The said Notice may be accessed on the Company's website at www.kmsugar.in and also on Stock Exchanges Website at www.nseindia.com including Un-audited quarter and half year results after approval by the Board.

Place: Lucknow
Dated: 2nd November, 2022

Company Secretary

FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF VISHAL LAKTO INDIA LIMITED

RELEVANT PARTICULARS	
1. Name of corporate debtor	Vishal Lakto India Limited
2. Date of incorporation of corporate debtor	06.12.1994
3. Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	ROC - Delhi
4. Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U15204HR1994PLC032484
5. Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	U 52/33, U block, DLF Phase-3, Gurugram, Haryana, 122002
6. Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	31.10.2022
7. Estimated date of closure of insolvency resolution process	29.04.2023
8. Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Mr. Ashish Singh (IBBI/PA-002/IP-N00416/2016)
9. Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	Flat No 901, Tower A-3, Clode Noida -201301
10. Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	Unit No-153A, Fifth Floor To Corenthum Sector-62, Noida
11. Last date for submission of claims	15.11.2022

Regional Stressed Asset Recovery Branch: 4th Floor, Rajendra Bhawan, Rajendra Place, New Delhi - 110008.
Tel. : 011-26752308 / 25752310
kofbaroda.com | Website : www.bankofbaroda.com

POSSESSION NOTICE

The Authorised Officer of the Bank Of Baroda under the exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Section 13(12) Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 14/10/2022 to the borrower Mr. Rakesh Ram Pathak Proprietor of M/s Rakesh Ram Pathak W/o Late Rakesh Ram Pathak and guarantors Mr. Rakesh Ram Pathak residing at Flat no. 31.66/- Paschim Vihar New Delhi-110063 and Mr. Anand Amrit Raj residing at Village & post Ramchanderpur, Thawe, Distt. Sahibganj, Bihar-824001 to pay in full and discharge your liabilities to the bank of Rs. 6918663.11/- (Rupees Sixty three thousand six hundred and ninety one paise only) along with future interest w.e.f 01.10.2021 till the date of NPA till realisation. In view of the borrower's failure to repay the amount, notice is hereby given to the borrower that the undersigned has taken possession of the property of the borrower in exercise of powers conferred on him under sub section 13(12) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002.

The borrower and the public in general is hereby cautioned not to dispose of the property which is subject to the charge of the bank of Rs. 6918663.11/- (Rupees Sixty three thousand six hundred and ninety one paise only) including interest upto the date of possession plus other cost, charges and expenses thereon, less the amount of Rs. 6918663.11/- (Rupees Sixty three thousand six hundred and ninety one paise only) including interest upto the date of possession.

The borrower is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Securitization and Reconstruction and Enforcement of Security Interest Act, 2002 to redeem the secured assets.

Description of the Immovable Property
The property is an independent built up freehold DDA shop/site no. 40, area 100 sq. meter, on 1st Floor, CSC at Hindustan Co-operative Society known as Guru Harkishan Nagar situated at Paschim Vihar, New Delhi-110063 in the Name of Mr. Rakesh Ram Pathak through legal heir Mr. Rakesh Ram Pathak W/o Late Rakesh Ram Pathak.

Sd/-
Authorised Officer
(Bank of Baroda)

HERO FINCORP LIMITED

CIN: U74899DL1991PLC046774
Office: 34, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi-110057
Phone: 011-4948 7150 | Fax: 011-4948 7197, 011-4948 7198
Email: litigation@herofincorp.com
Website: www.herofincorp.com

13(2) OF THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002

(Borrower), having its registered office at Plot No.57, Sector-4, Gurgaon, Haryana-122052, also at- Plot No.505-506, Sector-4, Gurgaon Haryana-122050 and also at- G-6, Palam Vihar Hospital, Ashok Vihar, Phase-3, Gurgaon-122001.
(Guarantor), residing at G-6, Palam Vihar Hospital, Ashok Vihar, Phase-3, Gurgaon-122001.
(Borrower/ Guarantor), residing at H.No.1258/4, Sector-4, Gurgaon, Haryana-122006.
(Borrower/ Guarantor), residing at 227, Urban Estate, Sector-4, Gurgaon, Haryana-122001.
(Borrower/ Guarantor), residing at G-6, Palam Vihar Hospital, Ashok Vihar, Phase-3, Gurgaon-122001.
(Borrowers)

The Borrowers had entered Master Facilities Agreement, and Addendum Agreement all dated 30.11.2017, Facility Agreement and Supplemental Agreement dated 22.03.2021, with hereinafter referred to as "HFCL") having its Registered Office, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi-110057, for facilities to the tune Rs.66,64,214/- (Rupees Sixty-Six Lakh Hundred Fourteen Only) in the form of Machinery Term Loan of Rs.8,83,000/- (Rupees Eight Lakh Eighty-Three Thousand Eight Hundred) in favour of HFCL.

Model No.	Manufacturer	Dealer/Vendor	Quantity
	Tajin Machine Tools	Tajin Machine Tools	1

The machinery shall hereinafter be referred to as "Secured Assets".

PRABHAT SECURITIES LIMITED

CIN: L22202UP1982PLC005759
R/O: 118/610 A, Kaushalpur-208012,
Ph: 512-2526347,
E Mail: prabhatsecurities@gmail.com,
Website: www.prabhatsecuritiesltd.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (LODR) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that (03/2022) Board Meeting of the Company is scheduled to be held at its Regd. Office, Kanpur on Saturday, the 12th November, 2022 at 01:00 pm inter alia to consider and approve the Audited Financial Statements of the Company for the quarter/half ended 30th September, 2022.

The trading window in respect of Company's securities shall open after 48 hours of declaration of financial results of the Company for the Quarter/half year ended on 30th September, 2022.

The said Notice may be accessed on the Company's website at www.prabhatsecuritiesltd.com and may also be accessed at CSE & MSEI website at <http://www.cse-india.com> & <http://www.msei.in>.

For Prabhat Securities Limited
Ramakant Kushwaha
Sd/-
Place: Kanpur (Managing Director)
Date: 01.11.2022



AHLUWALIA CONTRACTS (INDIA) LIMITED

Regd. Office: Plot No. A-177, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020
(CIN: L45101DL1979PLC009654)
Website- www.acilnet.com,
E-mail:- cs.corporate@acilnet.com

Intimation for Board of Directors Meeting

Pursuant to Regulation 29 of the Securities and exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we wish to inform you that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday, the 14th November, 2022 at the Registered Office of the Company at A-177, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110020, inter alia, to consider and take on record the Un-Audited Standalone and Consolidated financial results of the Company for the quarter and half year ended 30th September, 2022 and other agenda items, if any.

The trading window for dealing in the equity shares of the Company is already closed for all designated persons, their immediate relatives, other connected persons and shall remain closed till the conclusion of 48 hours after the declaration of financial results of the Company for the quarter ended 30th September 2022.

For Ahluwalia Contracts (India) Ltd
Sd/-
Place: New Delhi (Vipin Kumar Tiwari)
Date: 02.11.2022 Company Secretary

INCOME FINANCE LIMITED

1212, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi-110019
CIN: U65090DL1992PLC054182

